



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2639]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938

No. 2639]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

का.आ. 3394(अ).—जबकि आई.आर.एफ. शैक्षणिक ट्रस्ट जोकि अपने पंजीकरण संख्या ई-14436/बम्बई के तहत बम्बई-पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अंतर्गत पंजीकृत है, ने, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 11 की उप-धारा (i) के अंतर्गत एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, जिसकी पंजीकरण संख्या 083780684 है, और जिससे उसे भारत में उन शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों को, जोकि राष्ट्रीय हित के लिए हानिकर न हो, आयोजित करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्राधिकार प्राप्त हो गया है;

और जबकि उपलब्ध रिकार्डों और आसूचना एजेन्सियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि आई.आर.एफ. ने उक्त अधिनियम के कुछ उपबंधों का उल्लंघन किया है;

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 11 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट करती है कि आई.आर.एफ. शैक्षणिक ट्रस्ट उक्त अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए नियमों के अनुसरण में, किसी विदेशी सहायता को स्वीकार करने से पहले हर बार केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेगा।

[फा. सं. II/21022/58(0621)/2016-एफ.सी.आर.ए.(एम.यू.)]

ब्रजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2016

S.O. 3394(E).—Whereas I.R.F Education Trust, registered under Bombay Public Trust Act, 1950 vide its Regn. No. E-14436(BOM) has obtained a certificate of registration under sub-section (I) of section 11 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) holding Regn. No.083780684 authorising it to accept foreign contribution for undertaking educational and social programmes in India which are not detrimental to the national interest;

And whereas on the basis of records available and reports received from intelligence agencies, the Central Government is satisfied that I.R.F. Education Trust has violated certain provisions of the said Act;

Now, therefore, the Central Government in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, hereby specifies that the IRF Education Trust shall obtain prior permission of the Central Government on each occasion before accepting any foreign contribution in accordance with the provisions of section 12 of the said Act and the rules made thereunder.

[F. No. II/21022/58(0621)/2016-FCRA(MU)]

BRAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.